

सोशल

मीडिया

सेल

जनपद

आजमगढ़

पत्र संख्या:- 20/प्रेसनोट/2021

09 जनवरी 2021

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- बरदह

सामूहिक दुष्कर्म के 03 आरोपी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये गये अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 09.01.2021 को प्र 0नि0 विनोद कुमार मय हमराह के थाना हाजा से प्रस्थान कर मु0अ0सं0 09/21 धारा 376डी भादवि 67 आईटी एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ़ की विवेचनात्मक कार्यवाही में जिवली सूर्या ढाबा के पास मौजूद थे कि मुखबीर खास आकर सूचना दिया गया कि मु0अ0सं0 09/21 धारा 376डी भादवि 67 आईटी एक्ट के सम्बन्धित अभियुक्तगण कहीं जाने की फिराक में है तथा जिवली तिराहे पर मौजूद है। इस सूचना पर विश्वास कर प्र 0नि0 मय हमराहियान मय मुखबीर मय वाहन सरकारी के जिवली तिराहे से कुछ दूर पहले ही मुखबीर खास तीन व्यक्तियों की तरफ इशारा करके हट बढ गया। पुलिस टीम एकाएक तिराहे पर पहुंची जहाँ पर तीन व्यक्ति मंदिर के पास खडे थे कि पुलिस को देखकर अचानक भागना चाहे कि मौके पर तीनों को पकड लिया गया । पकडे गये व्यक्ति यों से बारी बारी से नाम पता पूछा गया तो पहले ने अपना 1. अमन राजभर पुत्र जोगेन्दर राजभर उम्र करीब 20 वर्ष, दूसरे ने कुन्नु उर्फ नवनीत यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव उम्र करीब 21 वर्ष तथा तीसरे ने अपना नाम आकाश राजभर पुत्र रामअवतार राजभर उम्र करीब 20 वर्ष साकिनान ग्राम चौकी पिलखुआ थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर बताया। चूंकि पकडे गये तीने व्यक्ति मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त है। जिनको कारण गिरफ्तारी बताते हुए समय करीब 08.50 बजे हिरासत पुलिस में लिया गया। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

अपराध का तरीका- अमन राजभर उपरोक्त द्वारा दिनांक 25.12.2020 को समय 7 बजे शाम को अपना घर दिखाने हेतु प्रार्थिनी को ग्राम चौकी (पिलखुआँ) थाना गौराबादशाहपुर जनपद जौनपुर ले जाकर अपने अन्य दोस्तों के साथ मिलकर दुपट्टे पर कुछ छिड़ककर मुँह पर लगाकर मदहोश करके बलात्कार करने तथा अश्लील विडियो बनाकर वायरल करना ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण

1. अमन राजभर पुत्र जोगेन्दर राजभर उम्र करीब 20 वर्ष
2. कुन्नू उर्फ नवनीत यादव पुत्र सुरेन्द्र यादव उम्र करीब 21 वर्ष
3. आकाश राजभर पुत्र रामअवतार राजभर उम्र करीब 20 वर्ष साकिनान ग्राम चौकी पिलखुआ थाना गौरा बादशाहपुर जनपद जौनपुर

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 09/21 धारा 376डी भादवि 67 आईटी एक्ट थाना बरदह जनपद आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

प्र0नि0 विनोद कुमार, कां0 आदित्य मिश्रा, कां0 आफताब आलम, म0कां0 कविता मल्होत्रा चालक हे0कां0 संतोष सिंह